

थाना उझानी पुलिस ने नकली चाँदी को असली के रूप में बेचकर लोगों के साथ ठगी करने वाले गिरोह का किया भण्डाफोड़, गिरोह के 3 सदस्य कार, अवैध अस्लाह एवं 5 किलो 400 ग्राम नकली चाँदी सहित गिरफ्तार ।

डॉ० ओपी सिंह वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बदायूँ के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत अपर पुलिस अधीक्षक नगर के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी उझानी के पर्यवेक्षण तथा हरपाल सिंह बालियान प्रभारी निरीक्षक थाना उझानी के नेतृत्व में दिनांक 04.08.22 को थाना उझानी पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर बिल्सी रोड शिवाश्रम के पास से तीन अभियुक्तगण 1. आबिद पुत्र शमसाद निवासी बिलालपत थाना असमोली जनपद सम्भल, 2. महबूब पुत्र अय्यूब निवासी ग्राम रामनगर चौराहा थाना असमोली जनपद सम्भल तथा 3. रब्बानी पुत्र रमजानी निवासी ग्राम रामनगर चौराहा थाना असमोली जनपद सम्भल को 24 गले की चैन, 24 हाथ की चैन, तीन जोड़ी पायल नई तथा दो पुरानी गले की चैन सभी सफेद धातु कुल वजन करीब 5 किलो 400 ग्राम, एक स्विफ्ट कार नं. DL5CK1985 तथा एक तमंचा 12 बोर दो कारतूस व एक चाकू सहित गिरफ्तार किया गया । उक्त बरामदगी के संबंध में थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 532/22 धारा 420/406 भादवि बनाम आबिद, महबूब, रब्बानी तथा नौशाद पुत्र नन्हे निवासी ग्राम ततारपुर थाना हजरतनगर गढ़ी जनपद सम्भल तथा मु०अ०सं० 533/22 धारा 3/25 ए एक्ट बनाम आबिद तथा मु०अ०सं० 534/22 धारा 4/25 ए एक्ट बनाम महबूब उपरोक्त पंजीकृत किया गया । गिरफ्तार अभियुक्तगण को माननीय न्यायालय पेश किया गया ।

पूछताछ का विवरण:- दौराने पूछताछ गिरफ्तार अभि०गण द्वारा बताया गया कि हम तीनों फेरी करके कपड़ा बेचना का काम करते थे इसी बीच हमारी मुलाकात नौशाद पुत्र नन्हे नि० ग्राम ततारपुर थाना हजरतनगर गढ़ी जनपद संभल से हुई जिसने हमें बताया कि कपड़े कि फेरी में कुछ नहीं बचता है मैं नकली चाँदी के जेबर बनवा लेता हूँ, तुम उसे बेचते रहना उसमें काफी फायदा होगा हम उसकी बातों में आ गये और हम कपड़े बेचने का काम छोड़कर इसमें लग गये, इसमें अच्छी बचत होने लगी लालच में आकर हमने अभी कुछ दिन पहले भी 24000/- रुपये की इसी प्रकार की चाँदी की चैन एक आदमी को बेच दी थी । हम पहले सौदा करते समय असली चैन दिखाते हैं लेकिन डिलिवरी में यही नकली चैन दे देते हैं जो देखने में बिल्कुल असली चाँदी लगती है। आज भी हम ये नकली चाँदी की चैन बेचने आये थे इसकी डील तीन लाख रुपये में तय हुई थी जिसमें 2000 रुपये पार्टी से एडवांस में लिए थे शेष पैसा पार्टी लेने गयी थी उनका हम लोग यहाँ इन्तजार कर रहे थे कि पकड़े गये ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम पता-

1. आबिद पुत्र शमसाद नि0 ग्राम बिलालपत थाना असमोली जनपद सम्भल ।
2. महबूब पुत्र अय्यूब नि0 ग्राम रामनगर चौराहा थाना असमोली जनपद सम्भल ।
3. रब्बानी पुत्र रमजानी नि0 ग्राम रामनगर चौराहा थाना असमोली जनपद सम्भल

विवरण बरामदगी:-

1. नकली चाँदी की चैन वजन कुल 5 किलो 400 ग्राम,
2. एक तमंचा 12 बोर दो कारतूस,
3. एक चाकू,
4. एक स्विफ्ट डिजायर कार नं. DL5CK1985

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 हरपाल सिंह थाना उझानी, बदायूँ ।
2. हे0कां0 08 अनुपम थाना उझानी, बदायूँ ।
3. हे0कां0 251 बलराम सिंह थाना उझानी, बदायूँ ।
4. कां0 687 अतेन्द्र कुमार थाना उझानी, बदायूँ ।

सोशल मीडिया सेल

जनपद बदायूं ।